




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 193]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 20, 1979/ज्येष्ठ 30, 1901

No. 193]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 20, 1979/JYAISTHA 30, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कानून, नागरिक, पूर्ति एवं सहायिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 1979

सं० का० वि० 384 (अ).—केन्द्रीय सरकार, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 32 की उपधारा (2) के खंड (i) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 में धीरे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 में नियम 24 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) बोर्ड, किसी एकल मामले में, अपने द्वारा उपगत दस हजार रुपये तक की हानियों को, जहाँ ऐसी हानि का संबंध सार्वजनिक धन, विभागीय राजस्व या प्राप्तियों, स्टाम्पों, सामग्रियों या बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से धारित अन्य सम्पत्ति से है, बंदे खाते खोल सकेगा।

इस रकम से अधिक की हानियों को केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से बंदे खाते में डाला जायेगा।

2(क) बोर्ड, उपनियम (2) के अधीन हानियों को बंदे खाते डालते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात् :—

(i) हानि से, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों या धारा 33 के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों या बोर्ड द्वारा अनुसरण की गई प्रक्रियाओं में कोई छूट प्रकट न हो,

(ii) नियम से ऊपर (i) में निदिष्ट नियमों, विनियमों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में किसी छूट का पता न चलता हो,

(iii) हानि बोर्ड के किसी कर्मचारी की ओर से किसी गंभीर भूल या उपेक्षा या कर्तव्य की अवहेलना के कारण नहीं हुई है और उन मामलों में जहाँ हानि बोर्ड के किसी कर्मचारी की ओर से किसी गंभीर भूल या उपेक्षा या कर्तव्य की अवहेलना के कारण हुई है वहाँ कर्मचारी से ऐसी हानि की रकम वसूल न करने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त कारण है,

(iv) यदि किसी सम्पत्ति की हानि अग्नि, बाढ़, भूकम्प, सूखान या किसी प्राकृतिक कारण से हुई हो तो यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि तम्बाकू की रिपोर्ट तत्परता से की

गई थी और बोर्ड के पूर्णतः समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया गया था कि हानि उद्युक्त परिस्थितियों में अपरिहार्य थी।

[फाइल नं० 8/6/78-ई० पी०-एग्री-6]

वी० सी० पण्डे, संयुक्त सचिव

टिप्पण 1—तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976, भारत के राजपत्र, प्रसाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 1-1-1976 में सा० का० नि० 1(प्र) तारीख 1-1-1976 के रूप में प्रकाशित।

टिप्पण 2—तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम, 1976 भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 28-8-76 में सा० का० नि० 1259 तारीख 20-8-1976 के रूप में प्रकाशित।

टिप्पण 3—तम्बाकू बोर्ड (द्वितीय संशोधन) नियम, 1976 भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 6-11-1976 में सा० का० नि० 1576, तारीख 1-11-1976 के रूप में प्रकाशित।

टिप्पण 4—तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) नियम, 1978 भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 1-7-1978 में सा० का० नि० 358, तारीख 16-6-1978 के रूप में प्रकाशित।

टिप्पण 5—तम्बाकू बोर्ड (द्वितीय संशोधन) नियम, 1978 भारत के राजपत्र, प्रसाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 28-12-1978 में सा० का० नि० 596(प्र) तारीख 28-12-1978 के रूप में प्रकाशित।

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 1979

G.S.R. 384(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (i) of sub-section (2) of section 32 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Tobacco Board Rules, 1976, namely :—

1. (1) These rules may be called the Tobacco Board (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Tobacco Board Rules, 1976, for sub-rule (2) of rule 24, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(2) The Board may write off losses incurred by it upto rupees ten thousand in any single case, where such

loss relates to public money, departmental revenue or receipts, stamps, stores or other property held by or on behalf of Board. Write off losses beyond this amount shall be done with the prior approval of the Central Government.

(2) While writing off losses under sub-rule (2), the Board shall have regard to the following factors, namely :—

(i) the loss does not disclose a defect in the rules made by the Central Government or the regulations made by the Board under section 33 or the procedures followed by the Board ;

(ii) the rule does not disclosed any defect in complying with the rules, regulations or procedures referred to in (i) above ;

(iii) the loss is not attributable to any serious lapse or negligence or dereliction of duty on the part of any employee of the Board and in cases where the loss is attributable to such lapse, negligence or dereliction of duty on the part of any employee of the Board there are good and sufficient reasons for not realising the amount of such loss from the employee ;

(iv) if the loss of any property is due to fire, flood, earth-quake, cyclone or any other natural cause, it has been ensured that the facts were promptly reported, and proved to the entire satisfaction of the Board that the loss was unavoidable in the aforesaid circumstances.

[File No. 8/6/78-EP-Agri. vi]

V. C. PANDE, Jt. Secy.

Note : (1) Tobacco Board Rules, 1976 published as G.S.R.

(1) (E) dated 1-1-1976 in Part II, Section 3, sub-section (i) of Extraordinary Gazette of India, dated 1-1-1976.

(2) Tobacco Board (Amendment) Rules, 1976 published as G.S.R. 1259 dated 20-8-1976 in Part II, Section 3, sub-section (i) of Gazette of India, dated 28-8-1976.

(3) Tobacco Board (Second Amendment) Rules, 1976 published as G.S.R. 1576 dated 1-11-1976 in Part II, Section 3, sub-section (i) of Gazette of India dated 6-11-1976.

(4) Tobacco Board (Amendment) Rules, 1978 published as G.S.R. 858 dated 16-6-1978 in Part II, Section 3, sub-section (i) of Gazette of India, dated 1-7-1978.

(5) Tobacco Board (Second Amendment) Rules, 1978 published as G.S.R. 596 (E) dated 28-12-1978 in Part II, Section 3, sub-section (i) of Extraordinary Gazette of India dated 28-12-1978.